

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.11.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 19.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 01.आमोद राजभर पुत्र राजेन्द्र सा0 दोहनी थाना खुखुन्दू, देवरिया। 02.मुन्ना राजभर पुत्र सुअर सा0 बडहरा थाना खुखुन्दू, देवरिया 03.विवेक गौड पुत्र गौतम गाड सा0 बतरौली पाण्डेय थाना खुखुन्दू, देवरिया गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10-10 लीटर कुल 30 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामदकर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 19.11.2020 को थानाध्यक्ष सलेमपुर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर नवलपुर से भागलपुर रोड पर से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.नूरुद्दीन पुत्र फैजुद्दीन सा0 चकहिछौरा थाना सलेमपुर, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 19.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 07 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔ थाना-सलेमपुर, मु0अ0सं0 213/2020 धारा-307,504 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी ऐक्ट 01.आकाश यादव पुत्र दीनानाथ यादव 02.सोनू यादव पुत्र रामप्रवेश 03.रितेश यादव पुत्र रामबली 04.उपेन्द्र यादव पुत्र जर्नादन 05.रणजीत यादव पुत्र विरेन्द्र 06.कुष्णा यादव पुत्र नथुनी यादव 07.रोहित यादव पुत्र जर्नादन सा0 नदौली थाना सलेमपुर, देवरिया।

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 19.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 36 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 19.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 133 वाहनों से 128500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।